

I/29908/2022

बिहार सरकार
बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी
(ग्रामीण विकास विभाग)

दिनांक :-08/08/2022

प्रेषक,

अनीश रंजन राव
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
नवादा, बिहार।

विषय: नवादा जिलान्तर्गत पकरीबरावां प्रखंड के ग्राम पंचायत-धमौल में मनरेगा अंतर्गत कार्यों में फर्जी राशि निकलने के संबंध में प्राप्त परिवाद पत्र ।

प्रसंग: श्री रंजित कुमार एवं अन्य ग्रामीण, ग्राम-पंचायत- धमौल, प्रखंड-पकरीबरावां, जिला नवादा से प्राप्त परिवाद पत्र ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री रंजित कुमार उर्फ गया यादव एवं अन्य ग्रामीण प्रतिनिधि, ग्राम-पंचायत- धमौल, प्रखंड-पकरीबरावां, जिला नवादा के द्वारा नवादा जिलान्तर्गत पकरीबरावां प्रखंड में वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2019-20 में ग्राम पंचायत- धमौल, श्यामदेव, तुर्कवन के सभी आहर-पईन का निर्माण लघु सिंचाई योजना से कराये गये कार्य को पुनः पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता एवं कार्यक्रम पदाधिकारी पकरीबरावां के द्वारा योजना का नाम बदलकर मनरेगा अंतर्गत क्रियान्वित कर फर्जी राशि निकाले जाने के संबंध में शिकायत किया गया है। साथ ही कई योजनाओं में JCB द्वारा मिट्टी भराई कार्य करा कर मस्टर रौल निकालने का प्रयास, प्रत्येक योजना पर 45/55 मजदूरों द्वारा कार्य दिखने लेकिन एक भी दिन कार्य पर पर मजदूरों के नहीं लगाने, NMMS का प्रयोग नहीं करने आदि की भी शिकायत की गयी है। (सुलभ प्रसंग हेतु शिकायत पत्र की प्रति संलग्न है।)

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है की पत्र के साथ संलग्न परिवाद पत्र में वर्णित बिंदुओं के संबंध में जिलास्तर से जाँच कराते हुए अग्रत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही इस संबंध में किये गये कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Signed by Anish Ranjan
Rao

(अनीश रंजन राव)

Date: 08-08-2022 13:05:05

Reason: Approved

प्रतिलिपि: जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, नवादा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सेवा में,

ग्रामीण विकास विभाग पटना।

विषय:— ग्राम पंचायत धमौल में मनरेगा कार्यों में,
फर्जी राशि निकालने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि लधु सिंचाई विभाग द्वारा ग्राम पंचायत धमौल, श्यामदेव, तुर्कवन के सभी आहर-पाईन सिंचाई के कार्य निर्माण वित्तीय वर्ष 2018-19 से लेकर वर्ष 2019-20 तक लधु सिंचाई योजना से काम कराया गया है। जिसका Project Unique Code- BR-NWD-225 प्रखण्ड पकरीबरावाँ जिला नवादा है इसी काम को मनरेगा द्वारा योजना का नाम बदलकर कराया जा रहा है जबकि लधु सिंचाई संबंधित विभाग से (NOC) एनओसी नहीं लिया गया है। मनरेगा विभाग के पंचायत रोजगार सेवक, PTA, कनीय अभियंता एवं कार्य क्रम पदाधिकारी पकरीबरावाँ के द्वारा फर्जी राशि निकाला जा रहा है। तथा कई योजना पर Jcb मशीन के द्वारा मिट्टी भराई कार्य करा कर मास्टर रौल निकालने का प्रयास किया जा रहा है योजना का सूचनार्थ Notecam द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी को किये जाने पर भी मास्टर रौल को एफटीओ निर्गत कर दिये है। 45/55 मजदूर प्रत्येक योजना पर कार्य दिखाया गया है लेकिन एक दिन भी कार्य पर मजदूर को नहीं लगाया गया। इसी कारण से NMMS का प्रयोग नहीं किया गया है। और फर्जी राशि निकासी किया गया है। तथा एक ही योजना का नाम बदल कर ग्राम पंचायत धमौल ग्राम तुर्कवन में मकिया पाईन की सफाई कार्य IC-20401973 है। एवं ग्राम पंचायत बेलखण्डा ग्राम परड़िया में दुलारी तकिया से गुहिया पुल तक पाईन की सफाई कार्य— IC-20418645 है। जबकि दुलारी तकिया बेलखण्डा पंचायत में पड़ता है।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि लघु सिंचाई विभाग एवं पंचायत मनरेगा द्वारा कार्य विकास योजनाओं की जाँच करने की कृप्या की जाए।

वार्ड सदस्य का
हस्ताक्षर

Mob No.- 8617462477,
9801488518

आपका विश्वासी जनता

ग्राम पंचायत धमौल का

हस्ताक्षर

01) शंकर कुमार उर्फ रामा माहव

02) Ramchandra yadav

03) मोहने डालम

04) दिनेश नथ

दशरथ राम

अध्यक्ष

वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति
वार्ड नं०-12, ग्राम पंचायत-धमौल
प्रखण्ड-पकरीबरावाँ (नवादा)

शुजा देवी

अध्यक्ष

वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति
वार्ड नं०-08, ग्राम पंचायत-धमौल
प्रखण्ड-पकरीबरावाँ (नवादा)

शंकर कुमार शर्मा

अध्यक्ष

वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति
वार्ड नं०-07, ग्राम पंचायत-धमौल
प्रखण्ड-पकरीबरावाँ (नवादा)

Abshana Khatoun

अध्यक्ष

वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति
वार्ड नं०-03, ग्राम पंचायत-धमौल
प्रखण्ड-पकरीबरावाँ (नवादा)

शंकर कुमार

शुजा देवी

अध्यक्ष

वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति
वार्ड नं०- 02 ग्राम पंचायत-धमौल
प्रखण्ड- पकरीबरावाँ (नवादा)

वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति
वार्ड नं०-04 ग्राम पंचायत धमौल
प्रखण्ड-पकरीबरावाँ (नवादा)